



श्री तुलसी पिए निरोग जाए...



Dosage chart of IMC Product

By: Pawarbrother.com Mb: 93990-95221

Diseases

Treatment/Doges

1. लकवा नसों की रूकावट के लिए:-

श्री तुलसी अर्क	10-12 बूद हर रोज
ट्रू हेल्थ कैप्सूल	1-1 सुबह-शाम
हिमालयन बैरी ज्यूस	20-20 MI. सुबह-शाम
वीट गोल्ड टेबलेट्स	1-1 सुबह-शाम
नैचूरोमेघा कैप्सूल	1-1 सुबह-शाम
राईस ब्राण्ड ऑयल	खाना बनाने में उपयोग करें।
फूट पैच	लगातार 15 दिन प्रयोग करें।

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी, तेल की तली चीजें, लाल मिर्च, आचार, घी, मिठाई आदि न लें।

ताम्रपात्र का जल या गरम जल, खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

2. हार्ट रोग:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूद सुबह-शाम
ट्रू हेल्थ कैप्सूल	1-1 सुबह-शाम
हार्ट स्ट्रोंग टैबलेट	1-1 सुबह-शाम
गारलिक टैबलेट	1-1 सुबह-शाम
हिमालयन बैरी	20-20 MI सुबह-शाम

Diseases

Treatment/Doges

Dieting

3. नजला, जुकाम, दमा अस्थ्मेटक एलर्जी:

श्री तुलसी अर्क	8-10 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
हर्बल गो-मूत्र	10-10 MI दिन में तीन टाईम	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
हिमालयन बेरी	20-20 MI सुबह-शाम	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
वीट गोल्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम	ताम्रपात्र का जल या गरम जल
ट्रू हेल्थ कैप्सूल	1-1 सुबह-शाम	खाने में सेधा नमक का
R.B.O. ऑयल	खाने में उपयोग करें।	उपयोग करें।

4. थायरॉइड:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
ऐलोवेरा जूस	40+60 MI सुबह-शाम	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
हिमालयन बेरी जूस	20-20 MI सुबह-शाम	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
वीट गोल्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम	ताम्रपात्र का जल या गरम जल
गो-मूत्र	10-10 MI सुबह-शाम	खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।
R.B.O. ऑयल	खाने में उपयोग करें।	अवश्यकता के अनुसार दवाई की मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है।

5. शुगर:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
ऐलोवेरा जूस	40+60 MI सुबह-शाम	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
हिमालयन बेरी जूस	20-20 MI सुबह-शाम	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
शुगर अवे टैबलेट	1-1 सुबह-शाम	ताम्रपात्र का जल या गरम जल
शुगर अवे रस	20-20 MI सुबह-शाम	खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।
फूट पैच	लगातार 15 दिन प्रयोग करें।	अवश्यकता के अनुसार दवाई की मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है।
R.B.O. ऑयल	खाने में उपयोग करें।	

6. पायरिया:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
डेन्टल क्रीम	दिन में 2 बार उपयोग करें।	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
इलायची अमृत	4 से 6 ड्रॉप तुलसी मिलाकर लें।	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।

Diseases

Treatment/Doges

DiETING

7. माईग्रेन:

श्री तुलसी अर्क

8-10 बूंद सुबह-शाम

ऐलोवेरा जूस

40+60 MI सुबह-शाम

हिमालयन बेरी जूस

20-20 MI सुबह-शाम

स्ट्रेस अवे टैबलेट

1-1 सुबह-शाम

ऐलो मुक्ता टैबलेट

1-1 सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का
उपयोग करें।

8. पीलिया:-

श्री तुलसी अर्क

6 बूंद सुबह-शाम

हर्बल गो-मूत्र

10-10 MI सुबह-शाम

संजीवनी जूस

20-20 MI सुबह-शाम

लिव केयर सिरप

10-10 MI सुबह-शाम

नोट: हर्बल गो-मूत्र 2-2 बूंद नाक में डाले

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।
दिन में 3 बार गन्ने या नारियल के
पानी का उपयोग करें।

9. पत्थरी:-

श्री तुलसी अर्क

8 से 10 बूंद सुबह-शाम

ऐलोवेरा जूस

40+60 MI सुबह-शाम

यूरिनोरम टैबलेट

1-1 सुबह-शाम

हर्बल गो-मूत्र

20-20 MI सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।
अवश्यकता के अनुसार दवाई की मात्रा
कम या ज्यादा की जा सकती है।

10. आखों की समस्याए:-

Aloe/ऐलो ज्योति प्लस

1-1 बूंद दिन में 3 बार

मोरिंगा टैबलेट

1-1 सुबह-शाम

नोनी जूस

20-20 ML

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

11. मिरगी का दौरा:

श्री तुलसी अर्क	8-10 बूंद सुबह-शाम
ऐलोवेरा जूस	40-60 MI सुबह-शाम
हिमालयन बेरी जूस	20-20 MI सुबह-शाम
ट्र्यू हेल्थ कैप्सूल	1-1 सुबह-शाम
माईड बोल्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का
उपयोग करें।

12. सैक्स समस्या:-

श्री तुलसी अर्क	6 बूंद सुबह-शाम
हर्बल गो-मूत्र	10-10 MI सुबह-शाम
डेली डाइट टैबलेट	1-1 सुबह-शाम
टोंगट अली टैबलेट	1 रोज रात को सोते समय
नाईट पावर टैबलेट	1-1 सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

13. चर्म रोग/सोरायसिस:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम
हर्बल गो-मूत्र	10-10 MI सुबह-शाम
वीट गोल्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम
नीम प्योर टैबलेट	2-2 सुबह-शाम
लीव केयर सिरप	10-10 दिन में तीन बार

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
दही, लस्सी, दूध, चाय
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

14. सफेद दाग:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम
ऐलो जैल	तुलसी के साथ मिलाकर लगायें।
वीट गोल्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम
स्कीन ग्लेयर टैबलेट	1-1 सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

Diseases

Treatment/Doges

Dieting

15. बवासीर- खूनी/बादी:

श्री तुलसी अर्क	8-10 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
ऐलोवेरा जूस	40-60 MI सुबह-शाम	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
पाईल्स अवे टैबलेट	1-1 सुबह-शाम खाली पेट	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
पाईल्स अवे क्रीम	शौच के बाद सुबह एक बार प्रयोग करें	ताम्रपात्र का जल या गरम जल
R.B.O. ऑयल	खाने में उपयोग करें।	खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

16. वेरी कोज वेन:-

श्री तुलसी अर्क	6 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
ट्र्यू हेल्थ कैपसूल	1-1 सुबह-शाम	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
हिमालयन बेरी	20-20 MI सुबह-शाम	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ऐलोवेरा जूस	40-40 MI सुबह-शाम	ताम्रपात्र का जल या गरम जल
मसाज ऑयल	सुबह-शाम 2 बार मसाज करें।	खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

17. स्त्री रोग. सफेद प्रदर/लूकोरिया:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
ईलायची अमृत	5-5 बूंद दिन में तीन बार	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
जीवन शक्ति रस	20-20 MI दिन में तीन बार	दही, लस्सी, दूध, चाय
प्यारी सहेली सिरप	10-10 MI दिन में तीन बार	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
प्यारी सहेली टैबलेट	1-1 सुबह-शाम	ताम्रपात्र का जल या गरम जल
सनेट्री नैपकिन	उपयोग करें।	खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

18. अनिमिया- खून की कमी:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
ऐलो डाईजैस्ट	तुलसी के साथ मिलाकर लगायें।	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
लीव केयर सिरप	10-10 सुबह-शाम	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
जीवन शक्ति रस	20-20 दिन में तीन बार	खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

नोट: रात खाने दलिया/दूध लें।

19. गर्भाशय की गाठ:

श्री तुलसी अर्क	8-10 बूंद सुबह-शाम
ऐलोवेरा जूस	40-60 MI सुबह-शाम
वीट गोल्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम खाली पेट
यूरिनोरम टैबलेट	1-1 सुबह-शाम

नोट: सेनेट्री नेपकिन का ही उपयोग करें।

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का
उपयोग करें।

20. बुखार- मलेरिया/डेंगू/टाइफायड:-

श्री तुलसी अर्क	6 बूंद सुबह-शाम
हर्बल गो-मूत्र	10-10 सुबह-शाम
संजीवनी जूस	20-20 MI सुबह-शाम
फिवर गार्ड सिरप	20-20 MI सुबह-शाम
फिवर गार्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

21. दुबलापन कमजोरी/थकान:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम
जीवन शक्ति रस	20-20 MI दिन में तीन बार
पावर ओ गोल्ड	1-1 चम्मच सुबह-शाम दूध के साथ
डेली डाईट टैबलेट	1-1 सुबह-शाम
लीव केयर सिरप	10-10 सुबह-शाम

नोट: हैल्थ किट का उपयोग कर सकते हैं

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
दही, लस्सी, दूध, चाय
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

22. कब्ज रोग:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम
ऐलो डाईजैस्ट	तुलसी के साथ मिलाकर लगायें।
ऐलोवेरा जूस	60-60 MI सुबह-शाम
फ्रेश मोर्निंग टैबलेट	2 गोली रात को गर्म पानी से लें

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

23. जोड़ों का दर्द-कमर व घुटनों का दर्द:

श्री तुलसी अर्क	8-10 बूंद सुबह-शाम
ऐलोवेरा जूस	40-60 MI सुबह-शाम
वीट गोल्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम खाली पेट
नोनी जूस	20-20 MI सुबह-शाम
पेन अवे टैबलेट	

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का
उपयोग करें।

24. बुखार- मलेरिया/डेंगू/टाईफायड:-

श्री तुलसी अर्क	6 बूंद सुबह-शाम
हर्बल गो-मूत्र	10-10 सुबह-शाम
संजीवनी जूस	20-20 MI सुबह-शाम
फिवर गार्ड सिरप	20-20 MI सुबह-शाम
फिवर गार्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

25. दुबलापन कमजोरी/थकान:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम
जीवन शक्ति रस	20-20 MI दिन में तीन बार
पावर ओ गोल्ड	1-1 चम्मच सुबह-शाम दूध के साथ
डेली डाईट टैबलेट	1-1 सुबह-शाम
लीव केयर सिरप	10-10 सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
दही, लस्सी, दूध, चाय
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

नोट: हैल्थ किट का उपयोग कर सकते हैं

26. कब्ज रोग:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम
ऐलो डाईजैस्ट	तुलसी के साथ मिलाकर लगायें।
ऐलोवेरा जूस	60-60 MI सुबह-शाम
फ्रेश मोर्निंग टैबलेट	2 गोली रात को गर्म पानी से लें

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।
नोट: रात खाने दलिया/दूध लें।

Diseases

Treatment/Doges

Dieting

27. मोटापा:

श्री तुलसी अर्क	8-10 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
ऐलोवेरा जूस	40-60 MI सुबह-शाम	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
फैट अवे टैबलेट	1-1 सुबह-शाम खाली पेट	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
एलो डाईजैस्ट	10-10 बूंद सुबह-दोपहर-शाम	ताम्रपात्र का जल या गरम जल
प्रोटीवोन पाउडर	दो चम्मच रात को आधे गिलास दूध से लें।	खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

28. अण्डकोष में पानी भरना:-

श्री तुलसी अर्क	6 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
हर्बल गो-मूत्र	10-10 सुबह-शाम	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
ऐलोवेरा जूस	40-40 MI सुबह-शाम	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
यूरिनोरम टैबलेट	1-1 सुबह-शाम	ताम्रपात्र का जल या गरम जल
फैलक्स सीड	5-5 ग्राम सुबह-शाम खाने के बाद	खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

नोट: एक-एक चम्मच दालचीनी पाउडर सुबह-शाम गर्म पानी से लें।

29. हाईट बढ़ाने के लिए:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 बूंद सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
डेली डाईट टैबलेट	1-1 सुबह-शाम	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
स्पीरूलिना टैबलेट	1-1 सुबह-शाम	दही, लस्सी, दूध, चाय
पावर ओ गोल्ड	1-1 चम्मच सुबह-शाम दूध के साथ	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
वीट गोल्ड टैबलेट	1-1 सुबह-शाम	ताम्रपात्र का जल या गरम जल खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

30. बी.पी. कम या ज्यादा:-

श्री तुलसी अर्क	8 से 10 सुबह-शाम	परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी
ऐलो मुक्ता टैबलेट	1-1 सुबह-शाम	तेल की तली चीजें, लाल मिर्च
ऐलोवेरा जूस	60-60 MI सुबह-शाम	आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
एलो डाईजैस्ट	5-5 बूंद दिन में तीन बार	खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

नोट: रात के खाने हल्का भोजन लें।

Diseases

Treatment/Doges

Dieting

31. कैसर:

श्री तुलसी अर्क

8-10 बूंद सुबह-शाम

हिमालयन बेरी जूस

20-20 MI सुबह-शाम खाली पेट

हर्बल गो-मूत्र

15-15 MI सुबह-शाम

ट्र्यू हेल्थ कैपसूल

1-1 सुबह-शाम

ब्रेसलेट

दायें बाजू में पहनायें।

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी

तेल की तली चीजें, लाल मिर्च

आचार, घी, मिठाई आदि न लें।

ताम्रपात्र का जल या गरम जल

खाने में सेधा नमक का

उपयोग करें।

32. लिपोमा:-

श्री तुलसी अर्क

6 बूंद सुबह-शाम

हर्बल गो-मूत्र

10-10 सुबह-शाम

एलोवेरा जूस

40-40 MI सुबह-शाम

यूरिनोरम टैबलेट

1-1 सुबह-शाम

मोरिंगा टैबलेट

1-1 सुबह-शाम

वीट गोल्ड टैबलेट

1-1 सुबह-शाम खाली पेट

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी

तेल की तली चीजें, लाल मिर्च

आचार, घी, बेसन, मेदा आदि न लें।

ताम्रपात्र का जल या गरम जल,

खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

33. कमजोर यादाशत:-

श्री तुलसी अर्क

8 से 10 बूंद सुबह-शाम

हिमालयन बेरी जूस

20-20 MI सुबह-शाम खाली पेट

स्ट्रेस अवे टैबलेट

एक गोली सुबह दूध के साथ लें।

माईन्ड बोल्ड टैबलेट

1-1 सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी

तेल की तली चीजें, लाल मिर्च

दही, लस्सी, दूध, चाय

आचार, घी, मिठाई आदि न लें।

ताम्रपात्र का जल या गरम जल

खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

34. सायटिका-नसों का दबना:-

श्री तुलसी अर्क

8 से 10 सुबह-शाम

ट्र्यू हेल्थ कैपसूल

1-1 सुबह-शाम

एलोवेरा जूस

60-60 MI सुबह-शाम

पेन अवे ऑयल

10-10 बूंद दिन में तीन बार लगाये।

ब्रासलेट

कमर या गर्दन में पहने।

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी

तेल की तली चीजें, लाल मिर्च

आचार, घी, मिठाई आदि न लें।

खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

नोट: रात के खाने हल्का भोजन लें।

35. तनाव:-

1. श्री तुलसी अर्क
2. हिमालयन बेरी जूस
3. माइंड बोल्ड टैबलेट
4. ट्रू हेल्थ कैपसूल
5. स्ट्रेस अवे टैबलेट

- 6-8 से बूंद हर रोज
- 20-20 MI सुबह-शाम
- 1-1 सुबह-शाम
- 1-1 सुबह-शाम खाल पेट
- 1-1 सुबह-शाम

परहेज:- आलू, अरबी, भिण्डी तेल की तली चीजें, लाल मिर्च आचार, घी, मिठाई आदि न लें।
ताम्रपात्र का जल या गरम जल खाने में सेधा नमक का उपयोग करें।

हर प्रकार की बिमारी के लिए लाभदायक:

1. श्री तुलसी अर्क
2. हिमालयन बेरी जूस
3. हर्बल गो-मूत्र
4. ट्रू हेल्थ कैपसूल
5. डेली डाइट टैबलेट
6. एलो काल-डी टैबलेट
7. पेन अवे टैबलेट
8. मोरिंगा टैबलेट
9. सपोरूलिना टैबलेट
10. यूरिनोरम टैबलेट
11. वीट गोल्ड टैबलेट
12. स्ट्रेस अवे टैबलेट

